



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2016/श्रावण 19, 1938

No. 556]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2016/SRAVANA 19, 1938

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक सेवा बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 782(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय डाकघर नियम, 1933 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये, सितम्बर, 2016 के प्रथम दिवस से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय डाकघर नियम, 1933 (जिसे इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“5(1). स्थल मार्ग से भेजी जाने वाली डाक वस्तुओं पर प्रभार्य डाक महसूल की दरें, जहां डाक शुल्क का पूर्व संदाय कर दिया गया है, सारणी में उल्लिखित डाक महसूल दरें होंगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	नाम	वजन स्लैब	देश का नाम	दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पत्र	20 ग्राम तक	सभी देशों के लिए	20.00
		प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए, 2000 ग्राम तक		10.00
2.	छोटे पैकेट	100 ग्राम तक	सभी देशों के लिए	60.00
		प्रत्येक अतिरिक्त 100 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए, 2000 ग्राम तक		45.00
3.	मुद्रित कागज	20 ग्राम तक	सभी देशों के लिए	15.00
		प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम अथवा		10.00

		उसके भाग के लिए, 2000 ग्राम तक		
4.	दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए साहित्य के पैकेट		सभी देशों के लिए	डाक शुल्क से छूट
5.	पोस्ट कार्ड (एक)		(i) पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान (ii) पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को छोड़ कर एशिया प्रशांत डाक संघ के देश (iii) ऊपर प्रविष्टि (i) और (ii) में निर्दिष्ट गए देशों से भिन्न वैश्विक डाक संघ के देश	4.00 6.00 7.00

(2) (क) यदि उप-नियम (1) में दी गई सारणी में क्रम सं 1,2,3 और 4 में उल्लिखित वस्तुओं को 'सर्फस एयरलिफ्टेड मेल द्वारा भेजा जाता है, तो उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट सामान्य भूतल मेल दरों के अतिरिक्त, निम्नानुसार अधिभार प्रभारित किया जाएगा।"

क्रम सं.	सेक्टर	प्रत्येक 20 ग्राम के लिए टैरिफ
(1)	(2)	(3)
1.	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क) के देश	2.00 रुपए
2.	खाड़ी के देश	2.00 रुपए
3.	एशिया के अन्य देश (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के देश और खाड़ी देशों को छोड़कर)	3.00 रुपए
4.	यूरोप के देश	4.00 रुपए
5.	अफ्रीका के देश	4.00 रुपए
6.	उत्तरी अमरीका और आस्ट्रेलिया के देश	6.00 रुपए
7.	दक्षिणी अमरीका के देश	8.00 रुपए

(ख) यदि उप-नियम (1) में दी गई सारणी में क्रम सं 5 में उल्लिखित डाक वस्तु को 'सर्फस एयरलिफ्टेड मेल द्वारा भेजा जाता है, तो उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट सामान्य भूतल मेल दरों के अतिरिक्त, निम्नानुसार अधिभार प्रभारित किया जाएगा।

क्रम सं.	सेक्टर	दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के देश	शून्य
2.	खाड़ी के देश	2.00 रुपए
3.	एशिया के अन्य देश (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के देश और खाड़ी देशों को छोड़कर)	3.00 रुपए
4.	उपर्युक्त क्रम संख्या 1,2 और 3 में निर्दिष्ट से भिन्न सभी देश	4.00 रुपए"

3. उक्त नियमों में, नियम 5 क के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"5क(1) जहां डाक प्रभार का पूर्व भुगतान कर दिया गया है वहां मुद्रित सामग्री के मेल बैग के कुल भार पर डाक प्रभार की निम्नलिखित दरें प्रभारित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	सेवा का नाम	मद	देश का नाम	दर (रुपए में)
	(1)	(2)	(3)	(4)
	मेल बैग (पूर्व में प्रपुंज थैले के रूप में निर्दिष्ट)	5 किलोग्राम से अनधिक 5 किलोग्राम से अधिक प्रति किलोग्राम के लिए, 30 किलोग्राम तक	सभी देशों के लिए सभी देशों के लिए	600.00 100.00

(2) यदि डाक वस्तुओं को सर्फेस एयरलिफ्टेड (एसएएल) डाक द्वारा भेजा जाता है तो, नियम 5क के उप-नियम (1) में दी गई सारणी में यथानिर्दिष्ट सामान्य भूतल मेल दरों के अतिरिक्त निम्नानुसार अधिभार प्रभारित किया जाएगा:

सारणी

क्रम सं.	सेक्टर	दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के देश	2.00 रुपए
2.	खाड़ी के देश	2.00 रुपए
3.	एशिया के अन्य देश (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के देश और खाड़ी देशों को छोड़कर)	3.00 रुपए
4.	यूरोप के देश	4.00 रुपए
5.	अफ्रीका के देश	4.00 रुपए
6.	उत्तरी अमरीका और आस्ट्रेलिया के देश	6.00 रुपए
7.	दक्षिणी अमरीका के देश	8.00 रुपए"

4. उक्त नियमों के नियम 6 में

- (i) "टिप्पण 2"का लोप किया जाएगा,
(ii) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"अनुसूची-क

सेवा	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के देश (सार्क), अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव	पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान	पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को छोड़कर एशिया प्रशांत डाक संघ के देश	वैश्विक डाक संघ के देश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
एयरमेल पोस्ट कार्ड	12.00	8.00	12.00	12.00
एयरोग्राम	15.00	15.00	15.00	15.00

अनुसूची-ख

यदि नियम 5 के उप-नियम (1) की सारणी में क्रम सं. 1, 2, 3, और 4 में दी गई डाक वस्तुओं को हवाई मेल द्वारा भेजा जाता है, तो उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट सामान्य भूतल डाक की दरों के अतिरिक्त निम्नानुसार अधिभार प्रभारित किया जाएगा:

हवाई अधिभार का टैरिफ		
(1)	(2)	(3)
क्र. सं.	सेक्टर	प्रत्येक 20 ग्राम के लिए टैरिफ
1.	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के देश	2.00 रुपए
2.	खाड़ी के देश	3.00 रुपए
3.	एशिया के अन्य देश (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के देश और खाड़ी देशों को छोड़कर)	4.00 रुपए
4.	यूरोप के देश	4.00 रुपए
5.	अफ्रीका के देश	5.00 रुपए
6.	उत्तरी अमरीका और आस्ट्रेलिया	7.00 रुपए
7.	दक्षिणी अमरीका के देश	9.00 रुपए"

5. उक्त नियमों में, नियम 68 के अधीन सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी अर्थात् :-

“सारणी

क्र.सं.	मद	दर
(1)	(2)	(3)
1.	पत्र, हवाई पत्र, पोस्टकार्ड, पैकेट	70.00 रु.
2.	मुद्रित सामग्री का डाक थैला (जिसे पूर्व में प्रपुंज थैला कहा गया था)	350.00 रु.”

[फा. सं. 1-20/2016-दर और लागत]

सरोज पुनहानि, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार

टिप्पण: 1 जनवरी, 1975 तक यथा संशोधित मूल नियमों को डाक एवं तार मैनुअल वाल्यूम-1 विधायी अधिनियमन भाग-1, पांचवां संस्करण में प्रकाशित किया गया था तथा पश्चात्पूर्ति संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से किये गये थे।

1. सा.का.नि. 2888, तारीख 19 दिसम्बर, 1975
2. सा.का.नि. 596(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 1975
3. सा.का.नि. 741(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1975
4. सा.का.नि. 472 तारीख 24 जनवरी, 1976
5. सा.का.नि. 93(अ), तारीख 25 फरवरी, 1976
6. सा.का.नि. 811(अ), तारीख 31 मई, 1976
7. सा.का.नि. 943 (अ), तारीख 21 जून, 1976
8. सा.का.नि. 135(अ), तारीख 7 जनवरी, 1978
9. सा.का.नि. 304(अ), तारीख 29 मई, 1978
10. सा.का.नि. 316(अ), तारीख 18 मई, 1979
11. सा.का.नि. 4118(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1979
12. सा.का.नि. 1256(अ), तारीख 13 मई, 1980
13. सा.का.नि. 490(अ), तारीख 26 जून, 1980
14. सा.का.नि. 491(अ), तारीख 26 जून, 1980
15. सा.का.नि. 380(अ), तारीख 5 जून, 1981
16. सा.का.नि. 409(अ), तारीख 26 सितम्बर, 1981
17. सा.का.नि. 59(अ), तारीख 11 फरवरी, 1982
18. सा.का.नि. 411(अ), तारीख 13 मई, 1982
19. सा.का.नि. 417(अ), तारीख 22 मई, 1982
20. सा.का.नि. 520(अ), तारीख 10 अगस्त, 1982
21. सा.का.नि. 33(अ), तारीख 20 जनवरी, 1983
22. सा.का.नि. 49(अ), तारीख 2 फरवरी, 1983
23. सा.का.नि. 92(अ), तारीख 21 मार्च, 1983

24. सा.का.नि. 444(अ), तारीख 23 मार्च 1983
25. सा.का.नि. 37(अ), तारीख 17 जनवरी, 1984
26. सा.का.नि. 1652(अ), तारीख 19 मई, 1984
27. सा.का.नि. 637(अ), तारीख 16 अप्रैल, 1986
28. सा.का.नि. 329 तारीख 3 मई, 1986
29. सा.का.नि. 461 तारीख 14 जून, 1986
30. सा.का.नि. 2420(अ), तारीख 28 जून, 1986
31. सा.का.नि. 436(अ), तारीख 24 जुलाई, 1986
32. सा.का.नि. 2460(अ), तारीख 24 जुलाई, 1986
33. सा.का.नि. 3677(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 1986
34. सा.का.नि. 1333(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1986
35. सा.का.नि. 85(अ), तारीख 6 फरवरी, 1987
36. सा.का.नि. 548(अ), तारीख 28 फरवरी, 1987
37. सा.का.नि. 379(अ), तारीख 10 अप्रैल, 1987
38. सा.का.नि. 265(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1987
39. सा.का.नि. 480(अ), तारीख 29 अप्रैल, 1987
40. सा.का.नि. 531(अ), तारीख 27 मई, 1987
41. सा.का.नि. 438(अ), तारीख 6 जून, 1987
42. सा.का.नि. 632(अ), तारीख 27 अगस्त, 1987
43. सा.का.नि. 688 तारीख 30 अगस्त, 1987
44. सा.का.नि. 807(अ), तारीख 2 सितम्बर, 1987
45. सा.का.नि. 823(अ), तारीख 15 सितम्बर, 1987
46. सा.का.नि. 829(अ), तारीख 15 सितम्बर, 1987

47. सा.का.नि. 976(अ), तारीख 9 नवम्बर, 1987
48. सा.का.नि 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 1988
49. सा.का.नि. 2(अ), तारीख 1 जनवरी, 1988
50. सा.का.नि. 55(अ), तारीख 15 जनवरी, 1988
51. सा.का.नि.212 (अ), तारीख 26 फरवरी, 1988
52. सा.का.नि. 344 (अ), तारीख 4 मार्च, 1988
53 सा.का.नि. 388 (अ), तारीख 14 अप्रैल, 1988
54. सा.का.नि. 462(अ), तारीख 2 मई, 1988
55. सा.का.नि. 639(अ), तारीख 23 मई, 1988
56. सा.का.नि. 683 तारीख 7 जून, 1988
57. सा.का.नि. 624(अ), तारीख 29 जून, 1988
58 सा.का.नि. 633(अ), तारीख 1 जुलाई, 1988
59 सा.का.नि. 684(अ), तारीख 8 जुलाई, 1988
60 सा.का.नि. 866(अ), तारीख 26 सितम्बर, 1988
61. सा.का.नि. 1022(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1988
62. सा.का.नि.14(अ), तारीख 4 जनवरी, 1989
63. सा.का.नि. 68(अ), तारीख 10 जनवरी, 1989
64. सा.का.नि. 180(अ), तारीख 24 फरवरी, 1989
65. सा.का.नि. 223(अ), तारीख 28 फरवरी, 1989
66. सा.का.नि.180(अ), तारीख 1 मार्च, 1989
67. सा.का.नि.314(अ), तारीख 1 मई, 1989
68. सा.का.नि. 435(अ), तारीख 9 जून, 1989
69. सा.का.नि. 478(अ), तारीख 24 जून, 1989
70. सा.का.नि. 639(अ), तारीख 26 अगस्त, 1989
71. सा.का.नि. 804(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 1989
72. सा.का.नि. 821(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 1989
73. सा.का.नि. 898 तारीख 2 दिसम्बर, 1989
74. सा.का.नि. 965 तारीख 12 दिसम्बर, 1989
75. सा.का.नि. 1077(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1989
76. सा.का.नि. 1078(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1989
77. सा.का.नि. 967(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 1989
78. सा.का.नि. 198(अ), तारीख 5 फरवरी, 1990
79. सा.का.नि. 100(अ), तारीख 1 मार्च, 1990

80. सा.का.नि. 197(अ), तारीख 5 मार्च, 1990
81. सा.का.नि. 312(अ), तारीख 5 अप्रैल, 1990
82. सा.का.नि. 358(अ), तारीख 30 अप्रैल, 1990
83. सा.का.नि. 379(अ), तारीख 11 मई, 1990
84.सा.का.नि. 544(अ), तारीख 5 जून, 1990
85. सा.का.नि. 545(अ), तारीख 5 जून, 1990
86. सा.का.नि. 783(अ), तारीख 13 जून, 1990
87. सा.का.नि. 68(अ), तारीख 10 अगस्त, 1990
88. सा.का.नि. 628(अ), तारीख 18 अगस्त, 1990
89. सा.का.नि. 671(अ), तारीख 31 अगस्त, 1990
90. सा.का.नि. 694(अ), तारीख 11 सितम्बर, 1990
91. सा.का.नि. 783(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 1990
92. सा.का.नि. 918(अ), तारीख 28 नवम्बर, 1990
93. सा.का.नि. 622(अ), तारीख 20 सितम्बर, 1991
94. सा.का.नि. 178(अ), तारीख 6 अप्रैल, 1992
95. सा.का.नि. 79(अ), तारीख 4 जनवरी, 1993
96. सा.का.नि. 259(अ), तारीख 5 मार्च, 1993
97. सा.का.नि. 420(अ), तारीख 17 मई, 1993
98. सा.का.नि. 615(अ), तारीख 20 सितम्बर, 1993
99. सा.का.नि. 616(अ), तारीख 16 सितम्बर, 1993
100. सा.का.नि. 778(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 1993
101. सा.का.नि. 43(अ), तारीख 21 जनवरी, 1994
102. सा.का.नि. 193(अ), तारीख 18 फरवरी, 1994
103. सा.का.नि.152(अ), तारीख 26 मार्च, 1994
104. सा.का.नि. 484(अ), तारीख 2 जून, 1994
105. सा.का.नि. 502(अ), तारीख 8 जून, 1994
106. सा.का.नि. 793(अ), तारीख 7 नवम्बर, 1994
107. सा.का.नि. 836(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 1994
108. सा.का.नि. 860(अ), तारीख 21 दिसम्बर, 1994
109. सा.का.नि. 873(अ), तारीख 21 दिसम्बर, 1994
110. सा.का.नि. 931(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 1994
111. सा.का.नि. 121(अ), तारीख 24 फरवरी, 1995
112. सा.का.नि. 342(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1995

113. सा.का.नि. 484(अ), तारीख 14 जून, 1995
114. सा.का.नि. 736(अ), तारीख 13 नवम्बर, 1995
115. सा.का.नि. 737(अ), तारीख 13 नवम्बर, 1995
116. सा.का.नि. 926(अ), तारीख 20 नवम्बर, 1995
117. सा.का.नि. 764(अ), तारीख 29 नवम्बर, 1995
118. सा.का.नि. 783(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 1995
119. सा.का.नि. 201(अ), तारीख 7 मई, 1996
120. सा.का.नि. 372(अ), तारीख 21 अगस्त, 1996
121. सा.का.नि. 27(अ), तारीख 18 सितम्बर, 1996
122. सा.का.नि. 517(अ), तारीख 6 दिसम्बर, 1996
123. सा.का.नि. 573(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 1996
124. सा.का.नि. 267(अ), तारीख 19 मई, 1997
125. सा.का.नि. 295(अ), तारीख 30 मई, 1997
126. सा.का.नि. 318(अ), तारीख 10 जून, 1997
127. सा.का.नि. 351(अ), तारीख 26 जून, 1997
128. सा.का.नि. 723(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 1997
129. सा.का.नि. 41(अ), तारीख 21 जनवरी, 1998
130. सा.का.नि. 42(अ), तारीख 21 जनवरी, 1998
131. सा.का.नि. 406(अ), तारीख 26 जुलाई, 1998
132. सा.का.नि. 503(अ), तारीख 19 अगस्त, 1998
133. सा.का.नि. 40(अ), तारीख 21 जनवरी, 1999
134. सा.का.नि. 46(अ), तारीख 22 जनवरी, 1999
135. सा.का.नि. 77(अ), तारीख 9 फरवरी, 1999
136. सा.का.नि. 345(अ), तारीख 13 मई, 1999
137. सा.का.नि. 357(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2000
138. सा.का.नि. 672(अ), तारीख 25 अगस्त, 2000
139. सा.का.नि. 71(अ), तारीख 7 फरवरी, 2001
140. सा.का.नि. 387(अ), तारीख 24 मई, 2001
141. सा.का.नि. 7(अ), तारीख 3 जनवरी, 2002
142. सा.का.नि. 23(अ), तारीख 11 जनवरी, 2002
143. सा.का.नि. 366(अ), तारीख 14 मई, 2002
144. सा.का.नि. 381(अ), तारीख 24 मई, 2002
145. सा.का.नि. 612(अ), तारीख 2 सितम्बर, 2002

146. सा.का.नि. 637(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2002
147. सा.का.नि. 705(अ), तारीख 4 सितम्बर, 2003
148. सा.का.नि. 514(अ), तारीख 10 अगस्त, 2004
149. सा.का.नि. 670(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2004
150. सा.का.नि. 292(अ), तारीख 19 मई, 2005
151. सा.का.नि. 30(अ), तारीख 20 जनवरी, 2006
152. सा.का.नि. 466(अ), तारीख 8 अगस्त, 2006
153. सा.का.नि. 487(अ), तारीख 18 अगस्त, 2006
154. सा.का.नि. 663(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2006
155. सा.का.नि. 210(अ), तारीख 20 मार्च, 2007
156. सा.का.नि. 511(अ), तारीख 27 जुलाई, 2007
157. सा.का.नि. 532(अ), तारीख 3 अगस्त, 2007
158. सा.का.नि. 775(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 2007
159. सा.का.नि. 22(अ), तारीख 9 जनवरी, 2008
160. सा.का.नि. 59(अ), तारीख 25 जनवरी, 2008
161. सा.का.नि. 238(अ), तारीख 28 मार्च, 2008
162. सा.का.नि. 400(अ), तारीख 25 मई, 2008
163. सा.का.नि. 588(अ), तारीख 11 अगस्त, 2008
164. सा.का.नि. 864(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 2008
165. सा.का.नि. 86(अ), तारीख 9 फरवरी, 2009
166. सा.का.नि. 282(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2009
167. सा.का.नि. 789(अ), तारीख 28 अक्टूबर, 2009
168. सा.का.नि. 310(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2010
169. सा.का.नि. 379(अ), तारीख 5 मई, 2010
170. सा.का.नि. 408(अ), तारीख 17 मई, 2010
171. सा.का.नि. 517(अ), तारीख 16 जून, 2010
172. सा.का.नि. 10(अ), तारीख 4 जनवरी, 2011
173. सा.का.नि. 37(अ), तारीख 19 जनवरी, 2011
174. सा.का.नि. 58(अ), तारीख 31 जनवरी, 2011
175. सा.का.नि. 63(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011
176. सा.का.नि. 734(अ), दिनांक 1 अक्टूबर, 2012
177. सा.का.नि. 1211(अ), तारीख 13 मई, 2012
178. सा.का.नि. 648(अ), तारीख 23 सितम्बर, 2013

179. सा.का.नि. 738(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2013
180. सा.का.नि. 328(अ), तारीख 28 मार्च, 2014
181. सा.का.नि. 366(अ), तारीख 28 मई, 2014
182. सा.का.नि. 22(अ), तारीख 7 जनवरी, 2015

183. सा.का.नि. 73(अ), तारीख 4 फरवरी, 2015
184. सा.का.नि. 207(अ), तारीख 19 मार्च, 2015
185. सा.का.नि. 881(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2015
186. सा.का.नि. 276 (अ), तारीख 3 मार्च, 2016

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

(POSTAL SERVICES BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2016

G.S.R. 782(E).—In exercise of the powers conferred by the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—

- (1) These rules may be called the Indian Post Office (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the 1st day of September, 2016.
- In the Indian Post Office Rules, 1933 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 5, the following shall be substituted, namely:—

“5(1) The rates of postage mentioned in the Table shall be chargeable on the postal articles to be sent by surface where the postage is pre paid, namely:—

TABLE

Sl. No.	Name	Weight Slab	Name of the country	Rate (In Rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Letters	Up to first 20 grams. For every additional 20 grams or part thereof up to 2000 grams.	For all countries For all countries	20.00 10.00
2.	Small packets	Up to first 100 grams. For every additional 100 grams or part thereof up to 2000 grams.	For all countries For all countries	60.00 45.00
3.	Printed papers	Up to first 20 grams. For every additional 20 grams or part thereof up to 2000 grams.	For all countries For all countries	15.00 10.00
4.	Blind literature packets		For all the countries	Exempted from Postage
5.	Post card (Single)		(i) Pakistan, Bangladesh, Nepal and Bhutan. (ii) Asian Pacific Postal Union countries except Pakistan, Bangladesh, Nepal and Bhutan.	4.00 6.00

			(iii) Universal Postal Union countries other than those referred to in entry (i) and (ii) above.	7.00
--	--	--	--	------

(2) (a) if the articles mentioned at serial numbers 1, 2, 3 and 4 of the Table in sub-rule (1) are sent by Surface Airlifted mail, the following surcharge shall be charged, in addition to normal surface mail rates as specified in the said Table.

Sl. No.	Sector	Tariff for every 20 grams
(1)	(2)	(3)
1	South Asian Association for Regional Cooperation countries (SAARC)	Rs. 2.00
2	Gulf Countries	Rs. 2.00
3	Other Countries in Asia (except South Asian for Association Regional Cooperation and Gulf Countries)	Rs. 3.00
4	Countries in Europe	Rs. 4.00
5	Countries in Africa	Rs. 4.00
6	Countries in North America and Australia	Rs. 6.00
7	Countries in South America	Rs. 8.00

(b) if the postal article mentioned at serial number 5 of the table in sub-rule (1) is to be sent by Surface Airlifted mail, the following surcharge shall be charged, in addition to normal surface mail rates as specified in the said Table.

Sl. No.	Sector	Rate in Rs.
(1)	(2)	(3)
1	South Asian Association for Regional Cooperation countries	Nil
2	Gulf countries	Rs. 2.00
3	Other countries in Asia (Except South Asian Association for Regional Cooperation and Gulf)	Rs. 3.00
4	All countries other than those referred to in serial numbers 1, 2 and 3 above	Rs. 4.00".

3. In the said rules, for rule 5 A, the following shall be substituted, namely:-

“5A (1) The following rates for postage shall be chargeable on the gross weight of mail Bag of printed matter when the postage is prepaid, namely:—

TABLE

Sl. No.	Name of Service	Item	Name of Countries	Rate in Rupees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mail bag (Formerly referred as Bulk Bag)	For a weight not exceeding 5 Kg. Per Kg. exceeding 5 Kg. up to 30 Kg.	For all countries For all countries	600.00 100.00

(2) If the postal articles are sent by Surface Airlifted mail the following surcharge shall be charged as under, in addition to normal surface mail rates as specified in the Table in sub-rule (1) of rule-5A.

TABLE

Sl. No.	Sector	Tariff for every 20 grams
(1)	(2)	(3)
1	South Asian Association for Regional Cooperation Countries	Rs. 2.00
2	Gulf Countries	Rs. 2.00

3	Other Countries in Asia (except South Asian Association for Regional Cooperation and Gulf Countries)	Rs. 3.00
4	Countries in Europe	Rs. 4.00
5	Countries in Africa	Rs. 4.00
6	Countries in North America and Australia	Rs. 6.00
7	Countries in South America	Rs. 8.00”.

4. In the said rules, in rule 6,

- (i) “Note 2” shall be omitted,
- (ii) for the Schedule, the following Schedules shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-A

Service	South Asian Association for Regional Cooperation Countries, Afganistan, Sri Lanka, and Maldives	Pakistan, Bangladesh, Nepal and Bhutan.	Asian Pacific Postal Union countries except Pakistan, Bangladesh, Nepal and Bhutan.	Universal Postal Union countries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Airmail Postcard	12.00	8.00	12.00	12.00
Aerogramme	15.00	15.00	15.00	15.00

SCHEDULE-B

If the postal articles mentioned at serial numbers 1, 2, 3 and 4 of the Table in sub-rule (1) of rule 5 are sent by Air mail, the following surcharge shall be charged, in addition to normal surface mail rates as specified in said Table.

Tariff of Air Surcharge		
Sl. No.	Sector	Tariff for every 20 grams
(1)	(2)	(3)
1	South Asian Association for Regional Cooperation Countries	Rs. 2.00
2	Gulf Countries	Rs. 3.00
3	Other Countries in Asia (except South Asian Association for Regional Cooperation and Gulf Countries)	Rs. 4.00
4	Countries in Europe	Rs. 4.00
5	Countries in Africa	Rs. 5.00
6	Countries in North America and Australia	Rs. 7.00
7	Countries in South America	Rs. 9.00”.

5. In the said rules, in rule 68, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

“Table

Serial Number	Item	Tariff
(1)	(2)	(3)
1.	Letters, Air Letters, Post Cards and Packets	Rs. 70.00
2.	Mail bag (Formerly referred as Bulk bag) of Printed Matter	Rs. 350.00”.

[F. No. 1-20/2016-T&C]

SAROJ PUNHANI, Jt. Secy. & Financial Advisor

1. G.S.R. 2888, dated the 19 th December, 1975
2. G.S.R. 596 (E), dated the 30 th December, 1975
3. G.S.R. 741 (E) , dated the 31 st December, 1975
4. G.S.R. 472, dated the 24 th January, 1976
5. G.S.R. 93 (E), dated the 25 th February, 1976
6. G.S.R. 811 (E), dated the 31 st May, 1976
7. G.S.R. 943 (E), dated the 21 st June, 1976
8. G.S.R. 135 (E), dated the 7 th January, 1978
9. G.S.R. 304 (E), dated the 29 th May, 1978
10. G.S.R. 316 (E), dated the 18 th May, 1979
11. G.S.R. 4118 (E), dated the 29 th December, 1979
12. G.S.R. 1256 (E), dated the 13 th May, 1980
13. G.S.R. 490 (E), dated the 26 th June, 1980
14. G.S.R. 491 (E), dated the 26 th June, 1980
15. G.S.R. 380 (E), dated the 5 th June, 1981
16. G.S.R. 409 (E), dated the 26 th September, 1981
17. G.S.R. 59 (E), dated the 11 th February, 1982
18. G.S.R. 411 (E), dated the 13 th May, 1982
19. G.S.R. 417(E), dated the 22 nd May, 1982
20. G.S.R. 520(E), dated the 10 th August, 1982
21. G.S.R. 33(E), dated the 20 th January, 1983
22. G.S.R. 49(E), dated the 2 nd February, 1983
23. G.S.R. 92(E), dated the 21 st March, 1983
24. G.S.R. 444(E), dated the 23 rd March, 1983
25. G.S.R. 37(E), dated the 17 th January, 1984
26. G.S.R. 1652(E), dated the 19 th May, 1984
27. G.S.R. 637(E), dated the 16 th April, 1986
28. G.S.R. 329, dated the 3 rd May, 1986
29. G.S.R. 461, dated the 14 th June, 1986
30. G.S.R. 2420, dated the 28 th June, 1986
31. G.S.R. 436(E), dated the 24 th July, 1986
32. G.S.R. 2460(E), dated the 24 th July, 1986
33. G.S.R. 3677 (E), dated the 25 th October, 1986
34. G.S.R. 1333(E), dated the 29 th December, 1986
35. G.S.R. 85(E), dated the 6 th February, 1987
36. G.S.R. 548(E), dated the 28 th February, 1987
37. G.S.R. 379(E), dated the 10 th April, 1987
38. G.S.R. 265(E), dated the 11 th April, 1987
39. G.S.R. 480(E), dated the 29 th April, 1987

40. G.S.R. 531(E), dated the 27 th May, 1987
41. G.S.R. 438(E), dated the 6 th June, 1987
42. G.S.R. 632(E), dated the 27 th August, 1987
43. G.S.R. 688, dated the 30 th August, 1987
44. G.S.R. 807 (E), dated the 2 nd September, 1987
45. G.S.R. 823 (E), dated the 15 th September, 1987
46. G.S.R.829(E), dated the 15 th September, 1987
47. G.S.R.976(E), dated the 9 th November, 1987
48. G.S.R. 1 (E), dated the 1 st January, 1988
49. G.S.R. 2 (E), dated the 1 st January, 1988
50. G.S.R. 55(E), dated 15 th January, 1988
51. G.S.R. 212 (E), dated the 26 th February, 1988
52. G.S.R. 344 (E), dated the 4 th March, 1988
53. G.S.R. 388 (E), dated the 14 th April, 1988
54. G.S.R. 462(E), dated the 2 nd May, 1988
55.G.S.R. 639 (E), dated the 23 rd May, 1988
56. G.S.R. 683, dated the 7 th June, 1988
57.G.S.R. 624 (E), dated the 29 th June, 1988
58.G.S.R. 633 (E), dated the 1 st July, 1988
59. G.S.R. 684 (E), dated the 8 th July, 1988
60.G.S.R. 866 (E), dated the 26 th September, 1988
61. G.S.R. 1022 (E), dated the 31 st December, 1988
62. G.S.R. 14 (E), dated the 4 th January, 1989
63. G.S.R. 68(E), dated the 10 th January, 1989
64. G.S.R. 180(E), dated the 24 th February, 1989
65. G.S.R., 223(E), dated the 28 th February, 1989
66. G.S.R. 180(E), dated the 1 st March, 1989
67. G.S.R. 314(E), dated the 1 st May, 1989
68. G.S.R. 435(E), dated the 9 th June, 1989
69. G.S.R. 478(E), dated the 24 th June, 1989
70. G.S.R. 639(E), dated the 26 th August, 1989
71. G.S.R. 804(E) dated the 12 th October, 1989
72. G.S.R. 821(E), dated the 16 th October, 1989
73. G.S.R. 898, dated the 2 nd December, 1989
74. G.S.R. 965, dated the 12 th December, 1989
75. G.S.R.1077(E), dated the 29 th December, 1989
76. G.S.R. 1078(E), dated the 29 th December, 1989
77. G.S.R. 967(E), dated the 30 th December, 1989
78. G.S.R. 198(E), dated the 5 th February, 1990

79. G.S.R. 100(E), dated the 1 st March, 1990
80. G.S.R. 197(E), dated the 5 th March, 1990
81. G.S.R. 312(E), dated the 5 th April, 1990
82. G.S.R. 358(E), dated the 30 th April, 1990
83. G.S.R. 379(E), dated the 11 th May, 1990
84. G.S.R. 544(E), dated the 5 th June, 1990
85. G.S.R. 545(E), dated the 5 th June, 1990
86. G.S.R. 783(E), dated the 13 th June, 1990
87. G.S.R. 68(E), dated the 10 th August, 1990
88. G.S.R. 628(E), dated the 18 th August, 1990
89. G.S.R.671(E), dated the 31 st August, 1990
90. G.S.R. 694(E), dated the 11 th September 1990
91. G.S.R. 783(E), dated the 12 th October, 1990
92. G.S.R. 918 (E), dated the 28 th November, 1990
93. G.S.R. 622(E), dated the 20 th September, 1991
94. G.S.R. 178(E), dated the 6 th April, 1992
95. G.S.R. 79(E), dated the 4 th January, 1993
96. G.S.R. 259(E), dated the 5 th March 1993
97. G.S.R. 420(E), dated the 17 th May, 1993
98. G.S.R. 615(E), dated the 20 th September, 1993
99. G.S.R. 616(E), dated the 16 th September, 1993
100. G.S.R. 778(E), dated the 27 th December, 1993
101. G.S.R. 43(E), dated the 21 st January, 1994
102. G.S.R. 193(E), dated the 18 th February, 1994
103. G.S.R. 152(E), dated the 26 th March, 1994
104. G.S.R. 484(E), dated the 2 nd June, 1994
105. G.S.R. 502(E), dated the 8 th June, 1994
106. G.S.R. 793(E), dated the 7 th November, 1994
107. G.S.R. 836(E), dated the 5 th December, 1994
108. G.S.R. 860(E), dated the 21 st December, 1994
109. G.S.R. 873(E), Dated the 21 st December, 1994
110. G.S.R. 931(E), dated the 26 th December, 1994
111. G.S.R. 121(E), dated the 24 th February, 1995
112. G.S.R. 342(E), dated the 18 th April, 1995
113. G.S.R. 484(E), dated the 14 th June, 1995
114. G.S.R. 736(E), dated the 13 th November, 1995
115. G.S.R. 737(E), dated the 13 th November, 1995
116. G.S.R. 926(E), dated the 20 th November, 1995
117. G.S.R. 764(E), dated the 29 th November, 1995

118. G.S.R. 783(E), dated the 7 th December, 1995
119. G.S.R. 201(E), dated the 7 th May, 1996
120. G.S.R. 372(E), dated the 21 st August, 1996
121. G.S.R. 27(E), dated the 18 th September, 1996
122. G.S.R. 517(E), dated the 6 th December, 1996
123. G.S.R. 573(E), dated the 18 th December, 1996
124. G.S.R. 267(E), dated the 19 th May, 1997
125. G.S.R. 295(E), dated the 30 th May, 1997
126. G.S.R. 318(E), dated the 10 th June, 1997
127. G.S.R. 351(E), dated the 26 th June, 1997
128. G.S.R. 723(E), dated the 26 th December, 1997
129. G.S.R. 41(E), dated the 21 st January, 1998
130. G.S.R. 42(E), dated the 21 st January, 1998
131. G.S.R. 406(E), dated the 26 th July, 1998
132. G.S.R. 503(E), dated the 19 th August, 1998
133. G.S.R. 40(E), dated the 21 st January, 1999
134. G.S.R. 46(E), dated the 22 nd January, 1999
135. G.S.R. 77(E), dated the 9 th February, 1999
136. G.S.R. 345(E), dated the 13 th May, 1999
137. G.S.R. 357(E), dated the 27 th April, 2000
138. G.S.R. 672(E), dated the 25 th August, 2000
139. G.S.R. 71(E), dated the 7 th February, 2001
140. G.S.R. 387(E), dated the 24 th May, 2001
141. G.S.R. 7(E), dated the 3 rd January, 2002
142. G.S.R. 23(E), dated the 11 th January, 2002
143. G.S.R. 366(E), dated the 14 th May, 2002
144. G.S.R. 381(E), dated the 24 th May, 2002
145. G.S.R. 612(E), dated the 2 nd September, 2002
146. G.S.R. 637(E), dated the 11 th September, 2002
147. G.S.R. 705(E), dated the 4 th September, 2003
148. G.S.R. 514(E), dated the 10 th August, 2004
149. G.S.R. 670(E), dated the 14 th October, 2004
150. G.S.R. 292(E), dated the 13 th May, 2005
151. G.S.R. 30(E), dated the 20 th January, 2006
152. G.S.R. 466(E), dated the 8 th August, 2006
153. G.S.R. 487(E), dated the 18 th August, 2006
154. G.S.R. 663(E), dated the 25 th October, 2006
155. G.S.R. 210(E), dated the 20 th March, 2007
156. G.S.R. 511(E), dated the 27 th July, 2007

157. G.S.R. 532(E), dated the 3 rd August, 2007
158. G.S.R. 775(E), dated the 18 th December, 2007
159. G.S.R. 22(E), dated the 9 th January, 2008
160. G.S.R. 59(E), dated the 25 th January, 2008
161. G.S.R. 238(E), dated the 28 th March, 2008
162. G.S.R. 400(E), dated the 25 th May, 2008
163. G.S.R. 588(E), dated the 11 th August, 2008
164. G.S.R. 864(E), dated the 18 th December, 2008
165. G.S.R. 86(E), dated the 9 th February, 2009
166. G.S.R. 282(E), dated the 24 th April, 2009
167. G.S.R. 789 (E), dated 28 th October, 2009
168. G.S.R. 310(E), dated 12 th April, 2010
169. G.S.R. 379(E) dated 5 th May 2010.
170. G.S.R. 408 (E), dated 17 th May, 2010.
171. G.S.R. 517(E) dated 16 th June,2010

172. S.O. 10(E) dated 4 th January, 2011
173. G.S.R. 37(E) dated 19 th January, 2011
174. G.S.R. 58(E) dated 31 st January, 2011
175. G.S.R. 63 (E) dated 3 rd February, 2011
176. G.S.R. 734 (E) dated 1 st October, 2012
177. G.S.R. 1211(E) dated 13 th May, 2012
178. G.S.R. 648 (E) dated 23 rd September, 2013
179. G.S.R. 738 (E) dated 18 th November 2013
180. G.S.R. 328(E) dated 28 th March 2014
181. G.S.R. 366(E) dated 28 th May 2014
182. G.S.R. 22 dated 7 th January, 2015
183. G.S.R. 73 (E), dated 4 th February, 2015
184. G.S.R. 207(E), dated 19 th March, 2015
185. G.S.R. 881(E), dated 18 th November, 2015
186. G.S.R. 276(E), dated 3 rd March, 2016